



13th June, 2022

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bardra (E) Mumbai- 400 051

NSE Symbol: HAVELLS

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400 001

Scrip Code: 517354

Sub: Newspaper Clippings - Economic Times & Jansatta

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Economic Times (English) and Jansatta (Hind) editions of 11th June, 2022 where a Notice has been published by Company after completion of despatch i.e. sending of emails of Notice of the next AGM of the Company together with the Annual Report.

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully, for Havells India Limited

(Sanjay Kumar Gupta) Company Secretary

Encl: As above









The Economic Times, New Delhi / Gurgaon, Saturday, 11 June 2022



US Inflation Hit 40-year **High in May**

Washington: The costs of gas, food and other necessities jumped in May, raising inflation to a newfour-decade high and giving American households no respite from rising costs.

Consumer prices surged 8.6% last month from 12 months earlier, faster than April's year-overyear surge of 8.3%, the Labor Department said Friday.

On a month-to-month basis, prices jumped 1% from April to May, a steep rise from the 0.3% increase from March to April. Much higher gas prices were to blame for most of that increase. America's rampant inflation is

imposing severe pressures on families, forcing them to pay much more for food,

Consumer prices surged 8.6% last month from 12 months earlier, faster than April's year-over-year surge of 8.3%: Labor Dept

and reducing their ability to afford discretioitems, from haircuts to electronics. Lower-income and Black and Hispanic Americans, in particular.

gas and rent

struggling because, on average, a larger proportion of their income is consumed by necessities.

Economists do expect inflation to ease this year, though not by very much. Some analysts have forecast that the inflation gauge the government reported Friday - the consumer price index may drop below 7% by year's end. In March, the year-over-year CPI reached 8.5%, the highest such rate since 1982.

High inflation has also forced the Federal Reserve into what will likely be the fastest series of interest rate hikes in three decades. The Fed hopes to cool spending and growth enough to curb inflation without tipping the economy into a recession. -AP

Russia can Partner with India, China and With Others: Putin

'World is big & diverse, impossible to fence off a country like Russia from the outside'

Moscow: Russian President Vladimir Putin has said that Moscow has the opportunity to build partnerships not only with India and China, but also with Latin America and Africa, asserting that it is impossible to "fence off" a country like Russia from the outside. Putin, during a meeting with young entrepreneurs here on Thursday, said that the world is big and diverse.

"You have just mentioned China and India. Why only China and India? It is also Latin America. Perhaps, Africa today is still sleeping, but it is waking up, 1.5 billion people live there. What about Southeast Asia," he was quoted as saying by Russia's state-run Tass news agency. Russia has the opportunity to build partnerships not only with Chi-

na and India, but also with Latin America, as well as Africa, which "is still sleeping, but is about waking up", Putin said.

Bilateral ties with Russia are a key pillar of India's foreign policy. India sees Russia as a longstan-



ding and time-tested friend that has played a significant role in its economic development and security. Apparently referring to the economic sanctions imposed by the West on Moscow following its military operation in Ukraine, Putin said "it

is impossible to fence off a country like Russia from the outside." The present-day Russia's mission

is to "get back and strengthen" its sovereignty and territories, he said. "It looks like our mission, too, is to get back and strengthen, and if we proceed from the fact that these core values are the basis of our existence, we will definitely succeed in achieving the goals ahead of us," Putin said.

Amidst European Union's calls to

look for the alternatives of Russia's energy supply, Purin said that the abandonment of Russian energy resources is unlikely in the coming

Rejection of Russian energy resources in recent years appears to be unlikely, he said.

"As regards abandonment of our energy resources, the probability is low in several years to come and nobody knows what will occur during several years. Nobody will set concrete plugs in wells, there is no such need," Putin said.

The Russian President visited a multimedia exhibition at the All-Russian Exhibition Center, dedicated to the 350th anniversary of the birth of Peter I, the first Russian Emperor.

He praised Peter the Great's role in building the Russian state. Drawing an analogy to the time of Peter the Great, Putin said that Peter I did not seize any Swedish territories during the Great Northern

War but "got them back."—PTI

Will 'Not Hesitate to Start War' Over Taiwan, Beijing Tells US

Singapore: Beijing will "not hesitate to start a war" if Taiwan declares independence, China's defence minister warned his US counterpart Friday, the latest salvo between the superpowers over the island.

The warning from Wei Fenghe came as he held his first face-to-face meeting with US Defence Secretary Lloyd Austin on the sidelines of the Shangri-La Dialogue security summit in Singapore.

Beijing views democratic, self- China's Defence Minister ruled Taiwan as its territory and has vowed to one day seize the island, by force if necessary, and US-China tensions over the issue have soared in recent months.

one dares to split Taiwan from China, the Chinese army will definitely not hesitate to start a war no matter the cost", defence ministry spokesman Wu Qian quoted the ministry.



Wei Fenghe

minister as saying during the meet-

The Chinese minister vowed that Wei warned Austin that "if any- Beijing would "smash to smithereens any "Taiwan independence" plot and resolutely uphold the unification of the motherland", according to the Chinese defence

He "stressed that Taiwan is China's Taiwan... Using Taiwan to contain China will never prevail", the ministry said.

Austin "reaffirmed the importance of peace and stability across the (Taiwan) Strait, opposition to unilateral changes to the status quo, and called on (China) to refrain from further destabilising actions toward Taiwan", according to the US Department of Defense.

Tensions over Taiwan have escalated in particular due to increasing Chinese aircraft incursions into the island's air defence identification zone (ADIZ).

US President Joe Biden, during a visit to Japan last month, appeared to break decades of US policy when, in response to a question, he said Washington would defend Taiwan militarily if it is attacked by China.—AFP

New Bank Loans Triple as Beijing Steps Up Support



Beijing: New bank lending in **China jumped** far more than

expected in May and broader credit growth also quickened, as policymakers try to reverse a sharp, COVID-induced economic slump. Chinese banks extended 1.89 trillion yuan (\$282.62 billion) in new yuan loans in May, data released by the People's Bank of China on Friday. Analysts polled by Reuters had predicted new yuan loans would surge to 1.3 trillion yuan in May from 645.4 billion yuan in April. -Reuters

MILLIONS COULD SUFFER CHRONIC HUNGER: UN

Ukraine Seeks More Help as it Holds Off **Russians in East**

Zelenskyy calls for action 'not just words' on EU membership

Kyiv: Ukrainian officials pleaded for more help from the West on Friday, including quicker deliveries of artillery and battlefield rocket systems, to hold off Russian forces at a critical time in the battle in the east. Heavy fighting was still being re-

ported in Sievierodonetsk, the small eastern city that has become the focus of Russia's advance and site of one of the bloodiest battles in a war that has increased financial and physical hardship around the world.

Chronic hunger could afflict up to 19 million more people globally over the next year due to reduced exports of wheat and other food commodities from Ukraine and Russia, the United Nations' food agency said.

Within Ukraine, officials said they were worried about the spread of deadly cholera and dysentery in the southern city of Mariupol, where tens of thousands of civilians live in ruins captured last month after being pulverized by Russian siege.

In a speech via video-link to a democracy conference in Copenhagen, President Volodymyr Zelenskiy pleaded for his country to be accepted as a part of the West, with binding guarantees for its protection.

"The European Union can take a historic step that will prove that words about the people of Ukraine belonging to the European family are not just words, and therefore are not empty," he said, calling on the EU to accept Ukraine's request to be accepted as a membership candidate.

Ukrainian officials say the war in the east has become primarily an artillery battle, in which they are severely out gunned by Moscow. The tide could be turned only if the West fulfils promises to send more and better artillery, including rocket systems that Washington and others have promised.

"This is an artillery war now," Vadym Skibitsky, deputy head of Ukraine's military intelligence, said in an interview with Britain's Guardian newspaper. - Reuters



EU Parliament 'Firmly Behind' **Ukraine Bid**



Copenhagen: The European Union's parliament supports

Ukraine's bid to achieve candidate status to join the European Union, the parliament's president Roberta Metsola said on Friday at the Copenhagen Democracy Summit. "The EU parliament stands firmly behind Ukraine's bid to receive EU candidate status," Metsola said. In a video address on Friday to the Copenhagen Democracy Summit, Zelenskyy said the EU should act quickly to offer Ukraine the status of a candidate. Agencies

Australia, New Zealand Unite on Chinese Pacific Threat

Canberra: Australia's prime minister said on Friday after a meeting with his New Zealand counterpart that the two nations are in lockstep in their policies toward the Pacific islands, where China's influence is growing.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern became the first foreign leader to visit Prime Minister Anthony Albanese in Australia since he was elected on May 21. Both lead center-left administrations and Ardern described the Albanese Labor Party's election after almost a decade in opposition as a reset in the bilateral relationship.

Australia, New Zealand and the United States have voiced concerns that a new Beijing security pact with the Solomon Islands could result in a Chinese military base being established there. The Solomons and China have both denied that that will happen. Asked if Australia wants New Zealand to do more to counter China's rise in the Pacific. Albanese told reporters in Sydney: "We're in lockstep on the Pacific, I look forward to working with Prime Minister Ardern, working with our democratic neighbours." Albanese and his Foreign Minister Penny Wong flew to Tokyo within hours of being sworn into office for a

meeting with US President

"Locally produced craft gins

have shifted the centre of gra-

vity in the category and enjo-

yed particular success, gathe-

ring momentum in the last

Indian craft gin category is

expected to grow exponenti-

ally with a strong likelihood

of more brands and invest-

ment from large and small

players alike, as industry in-

siders believe smaller towns

"The drinking pattern has

changed in India and people

want to consume what's tren-

ding and looks good on social

media," said Aditya Aggar-

wal, founder of Spaceman

Spirits Labs that sells Samsa-

ra. "Gin has the advantage of

being a refreshing option

with greater mixability for

cocktails compared to brown

will soon join the party.

two years," Holway said.

▶▶ From Page 1



PMs of Australia & New Zealand

posed by China.

Wong then flew from Japan to the Pacific islands for meetings with government leaders while China's Foreign Minister Wang Yi also embarked on a Pacific tour.

se plan to get 10 Pacific nations to endorse a sweeping new agreement that would have covered everything from security to fisheries. But he succeeded in clinching several bilateral agree-

Ardern said many countries had chosen to continue economic relationships with China rather than sign secu-

on these issues," Ardern sa-

The previous government Wang failed in a bold Chine- had committed to reducing Australia's emissions by 26 per cent to 28 per cent below 2005 levels by 2030. Albanese's government has promi-

New Zealand was heartened by Australia's greater ambition, Ardern said. New Zealand's target by the end of the decade is 30 per cent.

mio Kishida and Indian PM Narendra Modi. to discuss the regional security threat

rity agreements. "Let's hear from the Pacific

Joe Biden, Japanese PM Fu- the biggest foreign aid donor by Australia."—AP

will drive the next level of

growth for the category even

as the market for premium

gins in cities is still a nascent

an-made foreign liquor) gin

brands in the value segment

(Rs 240-900) such as Original

Choice and Blue Riband do-

minated gin market in the co-

untry. However, over the past

few years, their demand

shrunk as consumers traded

up for pricier brands. As a re-

sult, the value segment of gin

2021 from 895,000 cases in the

The success of local craft gin

brands has caught the atten-

tion of the big players. United

Spirits, the country's largest

alcobev company, acquired a

minority stake in Nao Spirits

in March and said it has signi-

ficant expansion plans, both

domestically and in interna-

tional markets.

pre-Covid year of 2019.

fell to about 413,000 cases in ki.

More Brands Likely

in the region, was being taken seriously by its neighbors since his administration promised greater action on greenhouse gas emissions. Many of the low-lying Pacific islands consider climate change their most pres sing and existential threat.

sed a 43 per cent reduction.

"The Pacific region has listed climate change as its number one threat," Ardern said. "I know with regards to New Zealand we have a lot more to do, but we welcome Albanese said Australia, being joined on that journey

tential to be India's answer to

globally competitive craft

gin, appealing to the millions

of Indian-origin consumers

living abroad," Hina Nagara-

USL, told analysts last month.

The growing preference for

boutique gins has also led to

nearly a dozen new premium

tonic water brands entering

the market in the past few ye-

ars. They include Sepoy & Co,

Jade Forest, Svami and Mala-

"Artisanal tonics and mix-

ers have influenced custo-

mers to try new spirits, lea-

ding to a vibrant cocktail cul-

ture never seen before in the

country," said Mohit Bhatia,

cofounder of Malaki, an arti-

sanal beverage brand. "And

tonic is a natural fit to be pou-

Malaki sold a million units

of ginger ale, sparkling and

red with Indian gins.'

TONIC FOR TONIC

For many years, IMFL (Indi- jan, managing director of

Rebranded McDonald's to Reopen in Russia

Sunday marks a new dawn for Russia's fastfood lovers as former McDonald's Corp restaurants reopen under new branding and ownership, more than three decades after the arrival of the hugely popular Western

fast food chain. The relaunch will begin on Russia Day, a patriotic holiday celebrating the country's independence, at the same flagship location in Moscow's Pushkin Square where McDonald's first opened in Russia in Janu-

In the early 1990s, as the Soviet Union crumbled, McDonald's came to embody a thawing of Cold War tensions and was a vehicle for millions of Russians to sample American food and culture. The brand's exit is now a powerful symbol of how Russia and the West are once again turning their backs on each other.

departures since Russia sent tens of thou- gion. -Reuters



sands of troops into Ukraine on Feb. 24. McDonald's iconic 'Golden Arches' have been taken down at sites in Moscow and St Petersburg, where they will make way for a McDonald's last month said it was selling new logo comprising two fries and a hamits restaurants in Russia to one of its local burger patty against a green background. licensees, Alexander Govor. The deal mar- The reopening will initially cover 15 locaked one of the most high-profile business tions in Moscow and the surrounding re-

Reaching of 80% of US Tesla Inc. Chief Executive Officer Elon Musk told employees at a meeting Wednesday that he is aiming for 80% of Americans to be on Twitter when he buys the social platform, according to an Electrek report.

Musk Targets Twitter

At the meeting, when one of the Tesla employees asked Musk "how the Twitter drama affects people at Tesla and what he can do to shield them from it," he thought about it for a second and said "Well, you know. Ignore Twitter. Ignore. Ignore," Electrek said in the report.

Musk then continued his pitch for buying Twitter and trying to turn it into a free-speech platform. "In the case of

Twitter, it's about how can we assure that there's a digital town square that is inclusive and as trusted as possible and where ideally, I don't know, 80% of Americans are on it," Musk said, according to the report. "They can speak their minds with reasonable freedom."

The social media service had 39.6 million daily users in the US in the first quarter.

Twitter Inc.'s top lawyer told company employees that Musk's \$44 billion offer is progressing and a shareholder vote is expected in later July or early August, Bloomberg reported Wednesday.



प्रायोगिक सूक्ष्मतर्ग इलेक्ट्रॉनिकी इजीनियरींग तथा अनुसंघान संस्था (समीर) SAMEER SOCIETY FOR APPLIED MICROWAVE ELECTRONICS **ENGINEERING & RESEARCH (SAMEER)**

-Bloomberg

(Kolkata Centre) (R & D Laboratory of Ministry of Electronics & Information Technology, Govt of India) Plot-L2, Block-GP, Sec-V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata- 700 091 Ph: 091-33 2357-4875 / 2357-4894, E-mail: hrd@mmw.sameer.gov.in

ADMISSION FOR WBL-LEVEL-01 PROGRAMME (Advt No: SMR(K)/Rec-02/2022) Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMÉER) is a Research & Development Institute under the Administrative control of Ministry of Electronics & Information Technology Government of India, SAMEER is implementing MeitY sponsored "Work based Learning Programme" to strengthen and empower fresh B.E. or B.Tech (E&TC or equivalent)/M.Sc.(Physics/Electronics/Physics with specialization in Electronics) candidates belonging only to SC/ST/WOMEN/EWS. Admissions are open for Work Based Learning Programme Level-01 (WBL-01) for the period from 1st July 2022 to 31st December 2022 (6 Months)

Written test and Walk in Interview date: 21st June 2022 .The contents of the full advertisement with eligibility criteria, age, and remuneration and application format can be downloaded from SAMEER Kolkata Website https://kolkata.sameer.gov.in/recruitment



Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, web: www.havells.com Email: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

Connaught Place, New Delhi - 110 001

HAVELLS INDIA LIMITED

Regd. Off.: 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg,

NOTICE

Corporate Off.: QRG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida - 201 304

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Integrated Annual Report for the Financial Year 2021-22 have already been emailed to all shareholders whose email addresses are registered/ available with the Company. The emailing of all Notices has been completed on 9th June, 2022.

and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means and the businesses may be transacted through such voting. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM, for those Members who have not already cast their vote by remote e-voting. The Board has appointed M/s MZ & Associates, Practising Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the voting in a fair and transparent manner. a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 1st July, 2022, may cast their vote

electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.

not be entitled to cast their vote again in the Meeting.

investors@havells.com by mentioning his/ her Folio No./ DP ID and Client ID No. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote b) The remote e-voting period commences on Tuesday, 5th July, 2022 (8:30 am) and ends on Thursday, 7th July, 2022 (5:00 pm). The

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting. Members may note that the Notice of the 39th Annual General Meeting and the Integrated Annual Report for FY 2021-22 are also available on the Company's website www.havells.com, the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com as well as on the websites

of the stock exchanges, namely, NSE & BSE. h) Members may contact Shri Sanjay Kumar Gupta, Company Secretary, for any grievances connected with voting by electronic means at the Corporate Office of the Company at Tel.+91-120-3331000; Email: investors@havells.com

For Havells India Limited Sanjay Kumar Gupta Company Secretary

Noida, June 10, 2022

(A) Notice is hereby given that the 39th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 8th July, 2022, Friday at 10:00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 19/2021 dated 8th December, 2021, 21/2021 dated 14th December, 2021 and 02/2022 dated 5th May, 2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice. Company's Registered Office i.e. 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, KG Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001 will be considered as venue for the purpose of the AGM

(B) In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 1st July, 2022 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or

remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. d) The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the Members participating in the AGM through VC/ OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall

400093, Tel No 022 62638222/ 236 E-mail: www.bigshareonline.com/Contact.aspx Place: Nagpur Date: 10.06.2022

Website: www.moil.nic.in, E-Mail ID: investors@moil.nic.in, Ph.: 0712-2806182, Fax: 0712-2591661

(Formerly Manganese Ore (India) Ltd.) (A Government of India Enterprise) 'MOIL BHAWAN", 1-A, Katol Road, Nagpur - 440 013

CIN:L99999MH1962GOI012398

Notice to Shareholders For Transfer of Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account Notice is hereby given that, in terms of requirement of Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is

required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years to the IEPF demat account of the A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for sever consecutive years from Final Dividend 2014-15 onwards and the shares are liable to be transferred to the IEPF authority, is displayed on the website of the Company

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF authority as per the said Rules Shareholders are requested to forward the requisite documents, as mentioned in said communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, to claim the shares and unclaimed dividend amount(s). In the absence of any receipt of a valid claim by 15" September, 2022 from the shareholders, the Company would be transferring the said shares and dividend to IEPF authority in accordance with the requirement of said rules without further notice.

transferred to IEPF authority, may note that upon such transfer the original share certificate(s) lying with them will stand automatically cancelled and deemed nonnegotiable. The company would be issuing new share certificate(s) in lieu of such original share certificate(s) for transfer the same to IEPF authority. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed

dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be

Shareholders can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF authority, for which details are available at www.iepf.gov.in For any information / clarification in this matter, concerned shareholder may write to the company at investors@moil.nic.in or contact the company's Register and Share Transfer Agent- Bigshare Services Private Limited Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai-

For MOIL LIMITED

(Neeraj Dutt Pandey)

Company Secretary

(हर एक काम देश के नाम)

MOIL – Adding Strength to Steel ◆

He added, "Smaller towns "These brands have the potential towns" tonic water last fiscal.

spirits."

शादी के लिए राजी न होने पर खफा युवक ने महिला पर फेंका तेजाब

बंगलरु, 10 जन (भाषा) बिंगलरु शहर के सरक्की इलाके में शुक्रवार की सुबह विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने से खफा एक प्रेमी ने कथित रूप से महिला के ऊपर

पलिस ने बताया कि 32 वर्षीय महिला को तेजाब से अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। दाहिनी आंख में चोट पहुंची है और एक निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। तलाकशुदा महिला तीन बच्चों थे और एक-दूसरे को पिछले तीन साल से जानते थे व दोनों की मां है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 36 वर्षीय आरोपी एक ही समुदाय से हैं।

पुलिस ने बताया कि दोनों एक ही फैक्टरी में काम करते

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष कंपनी

याचिका (सीएए) नं. 28/CHD/HRY/2022

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के तहत)

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी

सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड और ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड एवं उनके

सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड, CIN U45400HR2008PLC068302, पैन

AADCG1063D, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक

कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय–5वीं मंजिल, टॉवर –सी , बिल्डिंग नंबर ८,

ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड, CIN U23200HR2005PLC078211, पैन

AACCB6717A. कंपनी अधिनियम. 1956 के प्रावधानों के तहत एक निगमित

कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, टावर—सी, बिल्डिंग नं. 8

याचिका की सूचना

नोटिस पर ध्यान दें कि सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड और ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी

लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों **(''स्कीम'')** के बीच

समामेलन की एक योजना हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच की

मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के

तहत एक याचिका याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा माननीय नेशनल कंपनी लॉ

ट्रिब्युनल, चंडीगढ बेंच को प्रस्तुत किया गया था और 06.05.2022 को सुनवाई

के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उक्त याचिका की सूनवाई अब दिनांक 28.07.

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छूक किसी भी व्यक्ति को अपने

नाम और पते के साथ अपने या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित, इस प्रकार कंपनी

के वकील को उसके इरादे की सूचना भेजनी चाहिए, ताकि उक्त याचिका की

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले याचिकाकर्ता कंपनी

जहां इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त कंपनी याचिका का विरोध करना चाहता है,वहां वह

उसके विरोध के आधार या उसके शपथ पत्र की एक प्रति ऐसी सचना के साथ

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त याचिका की एक प्रति किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी

प्रस्तुत की जाएगी जिसको निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी आवश्यकता

बी.ओ.— पहाड़गंज, 5/1, डीबी गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली—110055

फोनः 011-23617738, ई-मेलः D0019@psb.co.in

सी 267 बी, गली नंबर 11, जैन मंदिर के पास, न्यू उस्मानपुर शास्त्री पार्क ,पूर्वी दिल्ली–110053

सी 267 बी, गली नंबर 11, जैन मंदिर के पास , न्यू उस्मानपूर शास्त्री पार्क ,पूर्वी दिल्ली–110053

सन्दर्भ : वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित

अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस।

. कि आप प्रेषिती सं. 1 श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री बाबू राम जैन और प्रेषिती सं.2 श्रीमती विमला

जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन ने वित्तीय सहायता के लिए बैंक से अनुरोध किया और उनके

अनुरोध पर बैंक ने 04.03.2016 को आपको निम्नलिखित रुपए 3900000 / – (उन्तालीस लाख

मात्र) की संपत्ति पर ऋण की स्वीकृत और अनुमित दी। उपरोक्त ऋण सुविधा को गली नंबर 11

की आबादी में ग्राम घोंडा घुजरान खादर, न्यू उस्मानपुर इल्लाका शाहदरा, दिल्ली–110053 स्थित

खसरा संख्या 1 आदि / 4 में से 50 वर्ग गज की भूमि क्षेत्र, पुरानी संख्या सी-19 / 2 और नई

संख्या सी-267-बी में अचल संपत्ति के संबंध में सम्यक बंधक के माध्यम से विधिवत सुरक्षित किया

गया था (खाता नंबर 00191200085623), उप पंजीयक IV सीलमपुर, दिल्ली के कार्यालय मे

पंजीकृत क्रमांक 1368 के क्रमांक 40 से 46 तक के पृष्ठ, बुक नं. 1, खंड संख्या 3775 पर बिक्री

विलेख दिनांक 01.03.2005 के माध्यम से प्रेषिती संख्या 2 श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री मदन लाल

2. कि आप प्रेषिती संख्या-1 श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री बाबू राम जैन और प्रेषिती संख्या 2

श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन ने 04.03.2016 को उपरोक्त सुविधा के संबंध में

विभिन्न ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया और उक्त सुविधा के संबंध में समय-समय पर बैंक

के मासिक अंतराल और दिशानिर्देशों के साथ बीआर 2.25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर का

3. कि प्रेषिती सं. 3 श्री दीवांशु जैन पुत्र श्री पवन जैन ने उक्त ऋण सुविधा को ध्यान में रखते

हुए प्रेषिती संख्या 1 और प्रेषिती संख्या 2 के लिए गारंटर के रूप में कार्य किया और बैंक के पक्ष

में 04.03.2016 को निरंतर गारंटी के विलेख को निष्पादित किया और इस प्रकार प्रेषिती संख्या :

की देयता सह- व्यापक और आप सभी संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से बैंक को ब्याज,

लागत और अन्य सामान्य बैंक शुल्क सहित देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। 4. कि आप प्रेषिती सं. 2 श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन ने उपरोक्त ऋण सुविधा

को ध्यान में रखते हुए बैंक की बकाया राशि को सुरक्षित करने के लिए उप पंजीयक IV सीलमपुर,

दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत क्रमांक 1368 के क्रमांक 40 से 46 तक के पष्ट, बक नं. 1, खंड

संख्या 3775 पर बिक्री विलेख दिनांक 01.03.2005 के माध्यम से गली नंबर 11 की आबादी में

ग्राम घोंडा घुजरान खादर, न्यू उरमानपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली–110053 स्थित खसरा संख्या

1 आदि / 4 में से 50 वर्ग गज की भूमि क्षेत्र, पुरानी संख्या सी–19 / 2 और नई संख्या सी–267–बी

ड. बंधक रखी गयी संपत्ति का विवरणः गली नंबर 11 की आबादी में ग्राम घोंडा घुजरान खादर,

न्यू उस्मानपुर इल्लाका शाहदरा, दिल्ली –110053 स्थित खसरा संख्या 1 आदि/4 में से 50 वर्ग

च . टाइटल डीड का विवरणः उप पंजीयक IV सीलमपुर, दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत क्रमांक

1368 के क्रमांक 40 से 46 तक के पुष्ठ, बुक नं. 1, खंड संख्या 3775 पर बिक्री विलेख दिनांक

छ. संपत्ति की चौहद्दी : पूर्व: मुख्य सडक, पश्चिम: अन्य की संपत्ति ,उत्तर : संपत्ति संख्या सी-267

ज. वर्तमान देय राशिः रु.3378081.33+ प्रभावी तिथि 01.06.2022 से ब्याज और बैंक शुल्क एवं व्यय।

5. उक्त ऋण के पूर्ण भुगतान की तिथि तक, मासिक अंतराल के साथ,ब्याज@बीआर्2.25% प्रति

6. कि आप स्वीकृति और ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों में चूक के मामले में मासिक अंत.

राल के साथ सामान्य सहमत ब्याज दर से अधिक 2% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज का

8.कि आपके खाते को 29.05.2022 को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

9.कि मेरा बैंक आपके खाता की नियमित पुस्तकों का रखरखाव करता है और अब खाता संख्या

00191200085623 में रु.3378081.33 / – की राशि 01.06.2022 से प्रभावी ब्याज है तथा बैंक शुल्क

एवं खर्च, कानूनी रूप से देय है और आपसे ऊपर प्रेषिती 1 से 3 तक की वसूली योग्य है और

आप सभी संयुक्त रूप से और अलग–अलग रूप से बैंक को पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज

10. कि ब्याज की दर बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती

है और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मासिक अंतराल के साथ ब्याज की वर्तमान दर

11.कि आप सुरक्षित संपत्ति को किसी को भी हस्तांतरित, असाइन और पट्टे पर नहीं देंगे अथवा

12.िक आपने बैंक की बकाया राशि के पुनर्भगतान में चुक की है जो ऊपर वर्णित अनुसार

गज की भूमि क्षेत्र, पुरानी संख्या सी–19/2 और नई संख्या सी–267–बी में अचल संपत्ति।

में अचल संपत्ति के संबंध में सम्यक बंधक के माध्यम से विधिवत सुरक्षित किया गया था।

क. बंधककर्ता का नामः प्रेषिती संख्या 2 श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन

सी 93, गली नंबर 5, जैन मंदिर के पास, न्यू उस्मानपुर शास्त्री पार्क, पूर्वी दिल्ली -110053

3273. सेक्टर 15—डी. चंडीगढ—160001. फोनः 9815992288

...याचिकाकर्ता कंपनी 1 /अंतरणकर्ता कंपनी

...याचिकाकर्ता कंपनी 2 /हस्तांतरिती कंपनी

संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना

डीएलएफ साइबरसिटी, हरियाणा, गुरुग्राम—122002 में है।

डीएलएफ सायबर सिटी, हरियाणा, गुडग्राम—122002 में है।

2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे निर्धारित की गई है।

के वकील तक पहुंच जाए।

प्रस्तुत करनी होगी।

दिनांक 10 जून, 2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

1. श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री. बाबू राम जैन

3. श्री दीवांशू जैन पुत्र श्री पवन जैन

भगतान करने के लिए भी सहमत हए।

बंधक संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:--

घ. ब्याज दरः बीआर्2.25%

ए ,दक्षिणः संपत्ति संख्या 268

10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं।

ख. बंधकः पंजाब एंड सिंध बैंक, बी.ओ- पहाडगंज, नई दिल्ली

वर्ष के साथ रु.51223 / – की 144 ईएमआई में चुकाने योग्य था।

7.कि आपने 04.03.2016 को ऋण दस्तावेज निष्पादित किए।

लागत और अन्य सामान्य बैंक शल्क उत्तरदायी हैं।

सुरक्षित संपत्ति के कब्जे के साथ सौदा या भाग नहीं लेंगे।

ग. सुरक्षित राशिः रु.3900000 / – (उन्तालीस लाख मात्र)

2. श्रीमती विमला जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन

निम्न के मामले में:

निम्न मामले में:

निम्न मामले में:

अधिनियम. २०१३ की धारा २३० से २३२

गखाः तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसुली शाखा (05171), कोलकाता ई-नीलामी शाखा का पता: 2/1, रसेल स्ट्रीट, कांकरिया केंद्र, तीसरी मंजिल, बिक्री सूचना कोलकाता- ७०००७१. शाखा की ई-मेल आईडी: sbi.051**71**@sbi.co.in

अधिकारी विवरणः नामः सत्यजीत चौधरी, ई-मेल आइडीः satyajit.c@sbi.co.in, मोबाइल नं. 9402698355

प्रकाशित किया गया था। आज इसका हिंदी में अनुवाद और प्रकाशन हो चुका है। असुविधा के लिए खेद है।

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत निम्नलिखित संपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा कर लिया है। बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित मामलों में प्रभारित संपत्तियों की ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "जो भी है" के आधार पर आयोजित की जाएगी।

ई-नीलामी का तिथि और समयः दिनांकः 28.06.2022 समय सेः 180 मिनट दोपहर 11.00 से 1.00 बजे तक। प्रत्येक बोली के लिए 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ।

पूर्व-बोली ईएमडी भुगतान करने की अंतिम तिथि: "इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के बंद होने से पहले एमएसटीसी के साथ पूर्व-बोली ईएमडी जमा कर सकता है। पूर्व-बोली ईएमडी का क्रेडिट एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने के बाद ही बोली लगाने वाले को दिया जाएगा और ई-नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट होने के बाद किया जाएगा। इसमें बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोली लगाने वालों

सचना सामान्य रूप से जनता को दी जाती है और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को दी गई है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति को गिरवी रख है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "जो भी है" पर 30.10.2019 को 215.49 लाख रुपये जमा आगे ब्याज + सुरक्षित लेनदार के खर्च के लिए मैं. युनाइटेड **न्युज ऑफ इंडिया**, 9, रफी मार्ग, विटठल भाई पटेल हाउस के पास, नई दिल्ली –110001 और ऑफिस नंबर 39, इमारत की तीसरी मंजिल जो "मेकर टॉवर"

मैं. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के नाम पर ऑफिस नंबर 39, इमारत की तीसरी मंजिल जो "मेकर टॉवर" के रूप में ज्ञात स्थित मेकर टॉवर "एफ" परिसर को– ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एस वासवानी मार्ग, 85 कफ परेड, कोलाबा, मुंबई -400005 में स्थित रकबा कार्पेट एरिया 567 वर्ग फुट से युक्त संपत्ति के सभी

प्रक्रिया आयोजित करने के लिए कृपया मैं. एमएसटीसी लि. के लिंक https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ ibapi/index.jsp और भावी खरीददार के लिए यूआरएल https://ibapi.in पर जाए।

दिनांक: 11.06.2022, स्थान: कोलकाता

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'') के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पू का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसुली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सुचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों∕प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कुला कर लिया था। यह विकी अधोहरताथ्यी दारा वेत्याहर yayay bankaguctions com पर पातशानित है. नीलापी खेराहाँप के पाश्या से सपान की जायेगी

कजदास (१)/ सह-कर्जदास (रों)/ जमानती(यों) के नाम	तिथि तथा राशि	अचल सम्पात्त/प्रातभूत आस्ति का विवरण	की तिथि	आराक्षत मूल्य	की तिथि			
1 श्री सम्मी मोहम्मद 2. श्रीमती अफसाना बेगम 3. सम्मी मोहम्मद ओआरजी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL 10137978)		सम्पत्ति प्लॉट नं. 21-ए एवं 21-बी का सम्पूर्ण भाग, कारपेट एरिया माप 250 वर्ग फीट, यूजीएफ बैकसाइड एलएचएस, ओम विहार, फेज-5, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 (बिल्ट-अप एरिया 315 वर्ग फीट)	3 जून, 2022 तक कुल बकाया रु. 14,74,727/- (रुपये	रू. 12,91,300/- (रुपये बारह लाख इक्यानबे हजार तीन सौ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 1,29,130/- (रुपये एक लाख उनतीस हजार एक सौ तीस मात्र)	11-जुलाई-2022 1100 बजे-1400 बजे ईएमडी की अन्तिम तिथि : 13 जुलाई, 2022 को 5 बजे अप. तक ई-नीलामी की तिथि⁄समय 15-जुलाई-2022 1100 बजे-1300 बजे			
भुगतान का माध्यम : सभी भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा गुरुग्राम में देय ''आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किये जायेंगे।								

नियम एवं शर्तें ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खात

खातों का विवरण निम्नलिखित है : (क) **खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड,** (ख) **बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड,** (ग) **खाता** सं.

लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को अपने "निविदा प्रपत्र" ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाख

संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ जायेगा।

सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे।

संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट

अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124/25/26 तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए श्री संजय कुमार, मोबाइल : 9643304680, ई-मेल आईडी : kumarsanjay@iifl.com से सम्पर्क कर

एतदुद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभृत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सुचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएर

एतदद्वारा कर्जदारों को सचना दी जाती है कि यदि वे उपर्यक्त कथित वस्तएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानन के अनुसार बेच दिया जायेगा। यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चुक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि

(ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा। o. एओ को बिना कोई कारण बताइए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है त

स्थान : दिल्ली, तिथि : ७ जून, २०२२ ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

सर्किल सस्त्र कार्यालय : अलीगढ़: कार्यालय पता : साई विहार, सामने मदन पैलेस, ग्राम तलासपर कलां, रामघाट रोड, अलीगढ-202001, ई-मेल : cs8183@pnb.co.in

जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रवर्तन एवं प्रतिभृतिकरण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कथित सुचना(ओं) की तिथि/कथित सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए माँग सुचना जारी की थी। कर्जदार/रों के पुनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में

के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा उस ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभत आस्तियों की अनुसूची

क्र.सं. 1 शा.का. सिविल लाइन्स, अलीगढ़ खाते का नाम मैसर्स एम.एस. ट्रैवल्स, इसके प्रोपराइटर मोहम्मद सगीर के माध्यम से बंधक सम्पत्ति का विवरण संपत्ति 1: वाणिज्यिक भूमि और भवन संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, खसरा नंबर 131 मिन, 134 मिन, और 136 मिन, गांव महेशपुर, अनुपशहर क्वार्सी बाय पास रोड, परगना और तहसील-कोइल, जिला-अलीगढ़ में स्थित, माप क्षेत्र 1140 वर्ग मीटर जिसका स्वामित्व मोहम्मद सगीर पुत्र मोहम्मद सरीफ के पास है, सीमाएं निम्नानुसार है: पूर्वः रास्ता 20 फीट चौड़ा पश्चिमः दूसरों की भूमि उत्तरः रामफल की भूमि **संपत्ति 2**: आवासीय प्लॉट संपत्ति खसरा/खेत संख्या 128 मिन का इविवटेबल बंधक, गांव/मौजा महेशपुर, परगना और तहसील-कोइल, जिला-अलीगढ़ में स्थित है, क्षेत्रफल 319.69 वर्ग मीटर, जिसका स्वामित्व मोहम्मद आकिब पुत्र मोहम्मद सरीफ के पास है, सीमाएँ निम्नानुसार है: पूर्वः मुमताज साबिर का प्लॉट पश्चिमः रास्ता २४' चौडा उत्तरः रास्ता २४' चौडा

संपत्ति 3: आवासीय प्लॉट संपत्ति खसरा/खेत संख्या 128 मिन का इक्विटेबल बंधक, गांव/मौजा महेशपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला–अलीगढ़ में स्थित है, क्षेत्रफल 267.99 वर्ग मीटर जो श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी मोहम्मद सगीर के स्वामित्व में है। सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः रास्ता २४' चौड़ा

उत्तरः रास्ता 25' चौड़ा दक्षिणः अराजी अन्य

संपत्ति 4: बैंक द्वारा वित्तपोषित वर्तमान या भावी बुक डेट, स्टॉक और अचल संपत्ति सहित सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।

5. 2,91,00,979.16 (रुपये दो करोड़ इक्यानबे लाख नौ सौ छिहत्तर एवं सोलह पैसे मात्र) तथा 01.06.2022 से भावी ब्याज एवं विधिक व्यय

शा.का. सिविल लाइन्स, अलीगढ़ **मैसर्स एम.एस. पोल्टी फार्म** (प्रोपराइटरशिप कंसर्न) इसके प्रोपराइटर मोहम्मद तदीब के माध्यम से

संपत्ति 1: वाणिज्यिक भूमि और भवन संपत्ति का इक्बिटेबल बंधक, खसरा/खेत संख्या 363, 364, 365, 366, 367 का हिस्सा

गांव टिकटा, पोस्ट छर्रा, ब्लॉक गंगरी, तहसील अतरौली, एस.एस.डी इंटरनेशनल स्कूल के पास, जिला अलीगढ़ में स्थित, कुल माप क्षेत्र 1.76 हेक्टेयर या 17600 वर्ग मीटर, मोहम्मद सगीर पुत्र मोहम्मद शरीफ और वीरेंद्र कुमार पुत्र राम स्वरूप के नाम पर, बिक्री विलेख के अनुसार सीमाः पूर्वः रामेश्वर के खेत

उत्तरः अरनी रोड दक्षिणः अलादीन के खेत

संपत्ति 2: शांति निकेतन ए.डी.ए खैर बाय पास रोड में स्थित प्लॉट सीएल-86 पर प्लॉट संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, माप लगभग 300 मीटर, पानी की टंकी और ईदगाह रोड, जिला-अलीगढ़, माप क्षेत्र 71.73 वर्ग गज यानी 60.00 वर्ग मीटर, मुर्सलीम पुत्र निसार और श्रीमती मज्दा बेगम पत्नी मुरसलीम के नाम पर, बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं:

पूर्व : प्लॉट नंबर सीएल-87 उत्तरः 7.5 मीटर रोड दक्षिण : प्लॉट नंबर सीएम-91 और 92

संपत्ति 3: खेत संख्या 128 के हिस्से में संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के हिस्से में और खसरा/खेत संख्या 128, गांव/मौजा महेशपुर, अनूपशहर रोड से लगभग 100 मीटर, परगना एवं तहसील-कोइल, जिला-अलीगढ़ में स्थित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज यानि 167.22 वर्ग मीटर, श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी मोहम्मद सगीर के नाम पर, बिक्री विलेख के अनुसार पूर्वः रास्ता २४' चौड़ा पश्चिमः रास्ता २५' चौडा

उत्तरः मुमताज साबिर का प्लॉट दक्षिणः चमन आदि का प्लॉट। संपत्ति 4: संपत्ति नगर निगम संख्या 14/279 का इक्विटेबल बंधक, मोहम्मद सराय सुल्तानी, छोटी मस्जिद के सामने, अपर कोर्ट रोड, जिला-अलीगढ़ में स्थित, सराय सुल्तानी पुलिस चौकी से लगभग 500 मीटर। माप क्षेत्र 180.88 वर्ग गज यानी 151.30 वर्ग

मीटर, यूसुफ पुत्र अब्दुल रज्जाक के नाम पर, बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्वः 5' चौड़ी गली पश्चिमः 6' चौड़ी गली / बंद कुंचा दक्षिणः इड़ा का प्लॉट / अब्दुल उत्तरः 15 फीट चौड़ी सड़क लतीफ और इस्माइल का घर।

संपत्ति 5: नकद ऋण सुविधा प्रतिभृत करने के लिए माल और बही ऋणों का दृष्टिबंधक


कब्जा सूचना की तिथि तक रु. 2,93,08,664.28 (रुपये दो करोड़ तिरानबे लाख आठ हजार छः सौ चौंसठ एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) तथा 01-06-2022 तिथि : 10.06.2022 स्थान : अलीगढ़

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

लगने से पिता

केरल में करंट व पुत्र की मौत

तिरुवनंतपुरम, 10 जून (भाषा)। केरल में करंट लगने से एक व्यक्ति और उसके बेटे की शुक्रवार को मौत हो गई। वे जिस लोहे की छड़ से नारियल तोड़ रहे थे, वह बिजली की तार से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अप्पाकृट्टन (66) और उसके बेटे रेनिल (38) के तौर पर हुई है। वे एर्नाकृलम जिले के चौवारा के रहने वाले थे।



हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रजि. ऑफिसः 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001

कॉर्पोरेट ऑफिस: क्यूआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304, फोनः #0120-3331000, फैक्सः #0120-3332000, वेबः www.havells.com ई-मेल: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

नोटिस

(अ) एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 39वीं एजीएम (वार्षिक आम बैठक) 8 जुलाई, 2022, शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के अनुपालन में और अन्य सभी लागू कानुनों और परिपत्रों के अनुपालन में वीडियो कॉन्क्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्अल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड (सेबी), नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए आयोजित की जायेगी। सामान्य और विशेष व्यवसायों का लेनदेन नोटिस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 904, 9वीं मंजिल, सूर्य किरण बिल्डिंग, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को एजीएम के प्रयोजन के लिए रथल माना जाएगा। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुबना की इलेक्टॉनिक प्रतिया पहले ही उन सभी शेयरधारकों को ईमेल कर दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत / उपलब्ध हैं। सभी नोटिसों की ईमेलिंग 9 जून,

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 की शतों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ, कंपनी प्रदान कर रही है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वीटिंग की सुविधा और ऐसे वोटिंग के माध्यम से कारोबार किया जा सकता है इलेक्ट्रोंनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम के दिन बैठक के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी, उन सदस्यों के लिए जिन्होंने पहले भी अपना वोट नहीं ढाला है रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट करें। बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए मैंसर्स एमजेंड एवं एसोसिएटस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्कूटिनाइजर नियुक्त किया हैं।

कट-ऑफ तिथि यानी 1 जुलाई, 2022 को भीतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ऐसे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 1 जुलाई, 2022 तक शेयर धारण करता है, वह अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करके evoting@nsdl.co.in या investors@havells.com को ईमेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही एनएसडीएल ई-वोटिंग के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपने मीजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं

ब) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 5 जुलाई, 2022 (सुबह 8:30 बजे) से शुरू होगा और गुरुवार 7 जुलाई, 2022 (शाम 5:00) को समाप्त हो जायेगा। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडग्रूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

स) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

द) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं बाला है, वे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

 सदस्य जिन्होंने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन बैठक में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। र) कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्य-रजिस्टर में या ढिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभ के अधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज

है, बैठक में रिमोट ई-वोटिंग या मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

ल) सदस्य ध्यान दें कि 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्त वर्ष 2021-22 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.havells.com. एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात एनएसई और बीएसई पर भी उपलब्ध है।

व) सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए कंपनी सचिव श्री संजय कुमार गुप्ता, कॉर्पोरेट कार्यालय फोन: +91-120-3331000; ई-मेल: investors@havells.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इस्ता/-संजय कुमार गुप्ता कंपनी सचिव नोएडा, 10 जून, 2022

हस्ता/-

अधिवक्ता

[अतुल वी. सूद]

दिनांकः 01.06.2022

याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ता

Punjab & Sind Bank

ई—नीलामी सह विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट—IV ए) (नियम 8(6))

फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालयः भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव, हरियाणा–122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालयः भूखंड सं. 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने, आईआईएफएल-एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेत. निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका आधिपत्य ग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

सह—ऋणकर्ता परिसंपत्ति का विवरण 13,00,000 / - (रुपए ते लाख मात्र) रु. 21,79,351 / . (रुपए इक्कीस लाख भूखंड संख्या एफ–5, फ्लैट संख्या धरोहर राशि जमा (धराज) उन्यासी हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) यूजीएफ-2, अधिमापन 525 वर्ग फुट अर्थात 48.77 वर्ग मीटर छताधिकारा. लाख चौदह हजार छब्बीस मात्र) के बिना, एलएचएस, एसएलएफ वेद बोली वृद्धि राशि लाख तीस हजार मात्र) विहार, ग्राम-सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी गाजियाबाद उत्तर संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 29 जून 2022 11.00 बजे — 14.00 बजे 01 जलाई 2022 5 बजे तक भुगतान का माध्यमः सभी भुगतान "आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित गुरुग्राम में भुग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्य

घ) आईएफएससी कोडः SCBL0036025 अथवा पेमेंट लिंकः https://quickpay.iiflfinance.com के माध्यम से . ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साग

से किए जाएंगे। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:– आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम – स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लि., ग) खाता सं.: 5310506629

बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिशत राशि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि की शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपृष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भूगतान ज हैं वो भगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे।

4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगग कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भुगतान वहन करना होगा।

नियमों एवं शर्तों हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। . विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी support@bankeauctions.com सहायता हेल्पलाइन नंबर्स: /7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं तथा किसी सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए श्री संजय कुमार से /9643304680, ई–मेल: kumarsan-

एतदुद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेत् उत्तरदायी नहीं होगी। 3. आगे ऋणकर्ता / ओं को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त कथित वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो वस्तुओं को विधि—व्यवस्था के अनुसार बेच

9. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भूगतान में चुक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहुल चुकता की गई राशि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।

10. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते है निविदा / नीलामी में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 9 उप-नियम (1) के अंतर्गत 15 दिवसीय विक्रय सूचना

ऋणकर्ताओं को एतदद्वारा अधिसचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानसार राषि का अद्यतनीकत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भगतान कर भुगतान करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय वसूली अधिकारी-I ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री सूचना दिनांक : 23.05.2022

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम भाई साहिब एण्ड सन्स

द्वारा की जाएगी। यह नीलामी बिक्री वेबसाईटः https://drt.auctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' के माध्यम से होगी। नीलामी की तिथि एवं समयः 28.07.2022 को 03.00 बजे अप. से 04.00 बजे अप. के बीच (संविदा बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में यदि जरूरी हुआ तो स्वतः विस्तार के साथ)

क्र.सं. सम्पत्ति का विवरण आरक्षित मल्य ईएमडी भतल, प्लॉट नं. 7/3 के दक्षिणी आधे भाग पर, रूप नगर, दिल्ली-07 रु. 19,98,000/-रु. 1,99,80,000/ सम्पत्ति सं. 34, के-5, मॉडल टाउन, मलिकपुर, छावनी, दिल्ली-09 रु. 2,11,50,000/-रु. 21,15,000/-नोट : उपर्यक्त सम्पत्ति आरक्षित मल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी

कर लेना चाहिए। इसे केवल तभी खरीदा जा सकता है जब निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित धरोहर राशि जमा कर दी गयी हो। 3. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III के पास 26.07.2022 तक

मुहरबन्द लिफाफे में जमा करनी होगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मुल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्हें अपने प्राधिकार जमा करने अपेक्षित हैं और चक करने पर उनकी संविदा अस्वीकार कर दी जायेंगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी का प्रतिनिधान/अटानी सुनिश्चित करते हुए कोई अन्य दस्तावेज तथा ऐसे जमा की कम्पनी की रसीद/काउंटर फाइल कथित सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य साधन द्वारा कथित तिथि तक पहँच जानी चाहिए और इसकी एक हार्ड कॉपी रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी।

5. सम्भावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, बी-704, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: 079-68136880/68136837, संविदाकार सपोर्ट मोबाइल 9265562821/18 के द्वारा support@auctiontiqer.net, Chintan.bhattq@auctiontiger.net वेब पोर्टल : https://drt.auction-

6. संभावित संविदाकारों द्वारा सम्पत्ति 26.07.2022 को 11.00 बजे पर्वा. से 4.00 बजे अप. तक निरीक्षण के लिए रखी है। सम्पत्ति के निरीक्षण तथा किसी पूछताछ के लिए इच्छुक संविदाकार सम्पर्क करें : श्री संजीव कुमार, सहायक महाप्रबंधक, शाखा एसएएमबी, बी-29, सीपी, नई दिल्ली, सम्पर्क नं. 011-

7. सम्भावित संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व बिक्री के नियम एवं शर्तों के विस्तृत विवरण हेतु वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net

देखने की सलाह दी जाती है।

10.संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार तथा जो है यही है'' पर की जा रही है।

11.सफल बोलीदाता को ईएमडी के समायोजन के पश्चात अपनी अन्तिम संविदा राशि की बिक्री कार्यवाही कार्यवाही का 25% अगले बैंक कार्यदिवस को 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित के अनुसार कथित खाते में जमा करनी होगी। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है तो अगले प्रथम कार्यालय दिवस

रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंककार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में वर्णित के अनसार निर्धारित माध्यम में। इसके अतिरिक्त उपर्यक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी द्वारा रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III के पास जमा करना होगा।

13.निर्धारित अवधि के भीतर भगतान में चुक करने की स्थिति में बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चुक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दावे करने से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नयी उद्घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अन्तिम संविदा राशि तथा बाद में बेचने पर प्राप्त राशि के

का पुर्ण अधिकारी है। 15.असफल संविदाकार/रों को अपनी ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की अनुगामी अनुसूची/परवर्ती तिथि पर वापस किया जायेगा।

16.इस चरण तक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में सम्पत्तियों के विरुद्ध किसी राजस्व/ऋणभार या दावे का विवरण नहीं है। किन्तु सम्भावित बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने हित में बिजली/पानी/गृह कर या किसी अन्य ऋणभार आदि के सम्बन्ध में अपना ड्यू डिलिजेंस करने की सलाह दी जाती है। 17.सीएच बैंक के काउंसेल को यहाँ ऊपर पैरा की पुष्टि के प्रमाणन का निर्देश दिया जाता है।

वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

www.readwhere.com

मांग सूचना की तिथि

बकाया राशि

शाखा का नाम

खाते का नाम

सचना चिपकाकर कब्जे की तिथि

कब्जा सूचना की तिथि तक

बंधक सम्पत्ति का विवरण

मांग सूचना की तिथि

बकाया राशि

सचना चिपकाकर कब्जे की तिथि

तेजाब फेंक दिया। पलिस ने इसकी जानकारी दी।

जनसत्ता में दिनांक 10.06.2022 को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सुचना के तहत हमारे विज्ञापन में। इस समाचार पत्र में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में विज्ञाप अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सुचना [नियम 8(6) व 9(1) के प्रावधानों को देखें]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री।

को अपने हित में, अंतिम मिनट की समस्या से बचने के लिए पूर्व-बोली ईएमडी राशि को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।"

दिया/सरक्षित लेनदार को चार्ज किया गया है, जिसके भौतिक कब्जे को अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक सरक्षित लेनदार, ''जैसा के रूप में ज्ञात स्थित मेकर टॉवर "एफ" परिसर को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एस वासवानी मार्ग, 85 कफ परेड, कोलाबा, मुंबई -400005 से वसुली के लिए 28.06.2022 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य 1,42,00,000.00 **रुपये** होगा और धरोहर राशि जमा 14,20,000.00 **रुपये** होगा और वृद्धिशील मूल्य 20,000.00 रुपये होगा। (जात ऋणभार के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण)

एसएआरबी/18708/एनबी, संपर्क संख्या 9402698355 बिक्री की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूतित ऋणदाता की वेबसाइट www.sbi.co.in व ई-नीलामी

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

कब्बा कर लिया था। यह बिक्रा अवाहस्तावरा धारा विषसाइट WWW.Dalikeauctions.com पर प्राप्यानत इ-नालामा प्लटफाम के माध्यम स सम्यन्त का जायगा।									
कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि				
1 श्री सम्मी मोहम्मद	19-मार्च-2022	सम्पत्ति प्लॉट नं. 21-ए एवं		₹. 12,91,300/-	11-जुलाई-2022				
2. श्रीमती अफसाना बेगम	रु. 14,34,687/- (रुपये चौदह लाख चौंतीस	21-बी का सम्पूर्ण भाग, कारपेट एरिया माप 250 वर्ग फीट,	3 जून, 2022 तक कल बकाया रु	(रुपये बारह लाख इक्यानबे हजार तीन सौ मात्र)	1100 बजे-1400 बजे ईएमडी की अन्तिम तिथि :				
3. सम्मी मोहम्मद ओआरजी	हजार छः सौ सत्तासी मात्र)	यूजीएफ बैकसाइड एलएचएस, ओम विहार, फेज-5, उत्तम	14 74 727/- (रुपये	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) :	13 जुलाई, 2022 को 5 बजे अप. तक				
(प्रॉस्पेक्ट नं. IL 10137978)	संविदा वृद्धि गृशि	नगर, नई दिल्ली-110059 (बिल्ट-अप एरिया 315 वर्ग	यात यौ यनार्दय मात्र)	रु. 1,29,130/- (रुपये एक	ई-नीलामी की तिथि/समय 15-जुलाई-2022 1100				
	रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	फीट)		लाख उनतीस हजार एक सौ तीस मात्र)	बजे-1300 बजे				

53105066294, (घ) आईएफएससी कोड : SCBL0036025 अथवा पेमेंट लिक : https://quickpay.iiflfinance.com

क्रेता को सेस, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं दरों, बाह्य व्ययों का वहन https://bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है।

इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अन्तिम होगा। सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सचना तदृद्वारा कर्जदार को निवदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसुचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर

सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसूल किया जायेगा।

..the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों

13. सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृ ष्ट किया जाता है, जिसके तहत आप केवल इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों के साथ–साथ बकाया राशि की पूरी राशि का भगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि बैंक द्वारा किए गए खर्च, प्रभार और खर्च के साथ बकाया देय

निविदा द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले प्रस्तुत नहीं की जाती है तो आप सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए, मैं, इस नोटिस के आधार पर, आप सभी अर्थात प्रेषिती नंबर 1 से 3 संयुक्त रूप से और अलग–अलग का भुगतान करने का आह्वान करता हूं, और 3378081.33 / – 01.06.2022 से प्रभावी ब्याज और मासिक अंत. राल के साथ बैंक शुल्क और खर्च, इस नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर बैंक की राशि का भुगतान करें तथा पूरी देनदारियों का निष्पादन करें, ऐसा न करने पर बैंक उपरोक्त सुरक्षित बकाया की वसूली सरफेसी अधिनियम, 2002 के अध्याय-III के प्रावधानों के तहत उपाय करने के लिए बाध्य होगा और उस स्थिति में आप संयुक्त रूप से और अलग–अलग रूप से सभी लागतों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य खर्चों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस की प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है।

की पूरी राशि,सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक या निजी संधि से

अधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

वित्तीय परिसम्पित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम

मांग सूचना तिथि आरक्षित मूल्य अचल संपत्ति / प्रतिभूत भौतिक आधिपत्य की तिथि (ओं) / गारंटर(रों) के नाम 2. श्रीमती प्रीति झा (प्रोस्पेक्ट IL10078179 IL10039809)

पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतू लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वृद्धि राशि'' के अंतर्गत अंकित राशि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों गं

बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय एवं नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत

. स्थानः गाजियाबाद, दिनांकः 11 जून 2022, ई-नीलामी

आर.सी. सं. 777/2018

मेरे आदेश तिथि 23.05.2022 के अनुसार अधोलिखित सम्पत्ति की बिक्री बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम भाई साहिब एण्ड सन्स के मामले में सार्वजनिक ई-नीलामी

1. नीलामी/बोली केवल इलेक्टॉनिक माध्यम में वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। 2. इच्छुक बोलीदाता को पूर्व में ही सेवा प्रदाता के साथ भागीदारी पंजीकृत कर लेनी चाहिए एवं ई-नीलामी में भाग लेने हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त

4. यदि वे स्वयं या अपने प्रिंसिपल की ओर से बोली लगा रहे हैं तो पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण एवं पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी। बाद के मामले में

tiger.net के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं। सम्पर्क व्यक्तिः चिन्तन भट्ट (मो.) 9978591888 (कार्यालय) 079-6813 6878

8. सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 9. संविदाकार अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति हेतु रु. 1,00,000/- के गुणक में बढ़ायेंगे।

12.सफल/उच्चतम बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अन्तिम संविदा राशि का 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन दिन

बीच किसी कमी या अन्तर की भरपाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे। 14.रिकवरी अधिकारी को किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताई ई-नीलामी को आस्थगित या निरस्त करने 🛭

(जय बर्धन)